



# संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक / 543 / अकादमिक / पीएच.डी. / 2023

अम्बिकापुर, दिनांक 12.07.2023

## अधिसूचना


विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 42 DOCTOR OF PHILOSOPHY के प्रावधानानुसार पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है-

1. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु निम्नलिखित विषयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.	विषय	रिक्त स्थान	क्र.	विषय	रिक्त स्थान
01	हिन्दी	33	12	गणित	02
02	अंग्रेजी	12	13	वनस्पतिशास्त्र	21
03	इतिहास	07	14	प्राणिशास्त्र	08
04	राजनीतिशास्त्र	28	15	पर्यावरण विज्ञान	06
05	अर्थशास्त्र	14	16	बायोटेक्नोलॉजी	03
06	समाजशास्त्र	07	17	माइक्रोबायोलॉजी	04
07	भूगोल	19	18	विधि	03
08	मनोविज्ञान	06	19	वाणिज्य	30
09	रसायनशास्त्र	18	20	फार्म फारेस्ट्री	11
10	भौतिकशास्त्र	12	21	फार्मैसी	01
11	कम्प्यूटर साइंस	05			

2. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 15.07.2023 से 30.07.2023 निर्धारित की जाती है। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र एवं विषयवार शोध केन्द्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sggcg.in](http://www.sggcg.in) पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में कार्यालयीन समय/दिवस में जमा किया जाएगा।
3. ऐसे आवेदक जो स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे, किन्तु स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात ही पात्रतानुसार पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा।
4. विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 42 के प्रावधानानुसार प्रवेश परीक्षा में छूट की पात्रता रखने वाले आवेदकों को भी उपर्युक्त निर्धारित समयावधि पर ही Admission Form/Registration Form जमा करना होगा।
5. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रु. 500.00 (पाँच सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट (कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के नाम से देय) अथवा रु.500.00 (पाँच सौ रुपये) विश्वविद्यालय स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा कर, रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।


6. आवेदन पत्र भरते समय आवेदक यह सुनिश्चित लें कि उनके द्वारा समस्त जानकारियों का उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है, तथा समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया है। आवेदक का पूर्ण पता पिन कोड सहित एवं मोबाइल नम्बर, ई-मेल एड्रेस लिखा होना अनिवार्य है।
7. रिक्त सीटों की संख्या में परिवर्तन संभव है। पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश छ.ग. राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधान के अनुसार होंगे।
8. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही, शोध कार्य हेतु पंजीयन के लिए विश्वविद्यालय की बाध्यता नहीं होगी। यह शोध निर्देशक के अधीन सीट रिक्त होने, आवेदक द्वारा शोध निर्देशक की सहमति प्राप्त करने, एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 42 में उल्लेखित प्रावधानों के अध्याधीन होगा।
9. प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा की तिथि की घोषणा पृथक से की जायेगी, जिसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।  
(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: / 544 / अका./ पीएच.डी./ 2023  
प्रतिलिपि :

अम्बिकापुर, दिनांक 12.07.2023

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय एवं समस्त शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी., संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. संपादक/ब्यूरो चीफ, समस्त दैनिक समाचार पत्र .....  
स्थानीय समाचार पत्र की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार वृत्त में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. कार्यालयीन नस्ती।

  
समन्वयक (पीएच.डी.)



**SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA  
AMBIKAPUR (C.G.)**

Application Form for Admission in Ph.D. Program/Registration  
as a Ph.D. Student Year 2023

Affix Recent  
Passport Size  
Self Attested  
Photograph

- 1 Subject: ..... Faculty: .....
- 2 Name of the Candidate : .....  
(In Block Letter)  
Name of Candidate (In Hindi) : .....
- 3 Father's/Husband's Name : .....
- 4 Date of Birth :
- 5 Gender : Male  Female  Other
- 6 Nationality : .....
- 7 Permanent Address : .....
- 8 Address for Correspondence : .....
- 9 Mobile No. : .....
- 10 E-mail ID : .....
- 11 Whether belonging to SC  ST  OBC  UR  /differently - abled   
(Please Tick which is applicable, Attach Self Attested Photocopies of Certificate if Applicable)
- 12 Domicile of Chhattisgarh : Yes  No   
(Please Tick which is applicable, Attach Self Attested Photocopies of Certificate if Applicable)
- 13 **Present Employment Details** - Position Held - .....  
Name & Address of the Employer - .....
- Attach Copy of No Objection Certificate (NOC) of Employer if applicable (Mandatory)
- 14 Details of Fee Payment: Challan / Demand Draft .....  
Challan/DD No..... Amount in Rs. .... Date of issue.....  
Name of the Bank .....
- 15 **Educational Qualification** (attach self attested copies of marksheet and certificates)

Degree	Board/University	Year of passing	Subject	Division/Grade	Percentage/Grade Points
10th					
12th					
Graduation					
Post Graduation					
M. Phil					
Any other (NET/SET etc.)					

Contd. -----

16 Details of previous research work (if any)

Signature of the Candidate

17 Consent of the Guide

Signature of the Guide

Note: if consent of the guide has not been taken then, candidate will have to mention the name of three guides in Order of Preference.

Candidate Preference  
Order for Guides S.No.

Name of the Guide and address

1

2

3

18 Recommendation of the DRC for admission in Ph.D. course :

Date of DRC

(Signature of DRC Members)

19 Exemption Status from the Course Work : Exempted / Not Exempted

20.

(i) Allotment of the Supervisor by the DRC

(Name of the Supervisor recognized by the University): .....

Address with Telephone Number & Email ID .....

List of papers published in the last five years.

(Enclosed reprint of at least one research paper)

(ii) Date of Seminar :

(iii) Results of the Course Work :

(iv) Title of the Ph. D. Thesis :

(v) Name of the Research Center where the  
research work will be carried out :

(vi) Recommendation of DRC for Ph.D. Registration :

Co-supervisor

Signature of the Supervisor

Chairman DRC

**Certificate by the Chairman, DRC**

This is to certify that Mr./Mrs./Ms.....  
will be allowed to carry out research work in the University Teaching Department/College/  
Institute and will be provided with the available research facilities.

Signature with Seal



# SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA, SARGUJA AMBIKAPUR (C.G.)

Application Form for Entrance Test for Ph.D. Program Year 2023

Affix Recent  
Passport Size  
Self Attested  
Photograph

- 1 Subject: ..... Faculty: .....
- 2 Specialization: .....
- 3 Name of the Candidate in full : .....  
(In Block Letter)
- 4 Father's/Husband's Name : .....
- 5 Date of Birth :
- 6 Gender : Male  Female  Other
- 7 Nationality : .....
- 8 Permanent Address : .....  
.....  
.....
- 9 Address for Correspondence : .....  
.....  
.....
- 10 Mobile No. : .....
- 11 E-mail ID : .....
- 12 Whether belonging to SC  ST  OBC  UR  /differently - abled   
(Please Tick which is applicable, Attach Self Attested Photocopies of Certificate if Applicable)
- 13 Domicile of Chhattisgarh : Yes  No   
(Please Tick which is applicable, Attach Self Attested Photocopies of Certificate if Applicable)
- 14 Details of Fee Payment: Challan / Demand Draft .....  
Challan/DD No..... Amount in Rs. .... Date of issue.....  
Name of the Bank .....

## 15 Educational Qualification (attach self attested copies of marksheet and certificates)

Degree	Board/University	Year of passing	Subject	Division/Grade	Percentage/Grade Points
10th					
12th					
Graduation					
Post Graduation					
M. Phil					
Any other (NET/SET etc.)					

Contd. -----

**16. Particulars of Publications in peer reviewed/Indexed National/International Journal**  
(Strike out whichever is not applicable)

Sr.	Title of the Paper/Book	Name of the Journal	Details of Publication		
			Volume	Issue	Year
1					
2					
3					
4					

**17. Details of Teaching Experience**

Sr.	Name of the College	Subject'(s) Taught	Period	
			From	To
1				
2				
3				
4				

**18. Details of Work Experience**

Sr.	Name of The Organization	Designation	Period	
			From	To
1				
2				
3				
4				

**19. Present Employment Details**

Position Held :

Name of The Employer :

Address of Employer :

Attach Copy of No Objection Certificate (NOC) of Employer if applicable (Mandatory)

**20 Declaration :**

- a) I hereby declare that the above information is true and complete to the best of my knowledge. I am aware that if any, information herein is found to be incorrect or incomplete; my application form will be cancelled.
- b) If admitted to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja Ambikapur I shall abide by its Rules and Regulations.
- c) I have read and understood all the provisions contained in the Notification and hereby agree to abide by these provisions.

Place :

Date :

**Signature of the Candidate**



**SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA,  
SARGUJA AMBIKAPUR (CG)  
Ph.D. Entrance Examination : Year 2023  
ADMIT CARD**

Affix Recent  
Passport Size Self  
Attested  
Photograph

Roll No.

Subject :

Name & Address of the Candidate

Name & Address of the Examination Center :

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

Date of Examination :

Time of Examination :

Head, UTD /Principal